



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 14] नई दिल्ली, जुलाई 13—जुलाई 19, 2014, शनिवार/आषाढ़ 22—आषाढ़ 28, 1936
No. 14] NEW DELHI, JULY 13—JULY 19, 2014, SATURDAY/ASADHA 22—ASADHA 28, 1936

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2014

का.नि.आ. 45.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, महानिदेशालय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाएं के अधीन सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे, सशस्त्र बल चिकित्सा भंडार डिपो और सशस्त्र बल रुधिर आधान केंद्र में आशुलिपिक श्रेणी-3 (अब आशुलिपिक श्रेणी-2 के रूप में पदनामित) के समूह 'ग' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, महानिदेशालय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाएं समूह “ग” आशुलिपिक श्रेणी-2, भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **आरंभिक गठन.**—यूनियों (सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे, सशस्त्र बल चिकित्सा भंडार डिपो और सशस्त्र बल रुधिर आधान केंद्र डीजीएफएमएस के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन) में नियुक्त किए गए आशुलिपिक श्रेणी-3 (अब आशुलिपिक श्रेणी-2 के रूप में पुनः

पदनामित)का पद धारण कर रहे कर्मचारियों को माडल भर्ती नियमों के आधार पर भर्ती किया गया था। इन नियमों के प्रकाशन से पूर्व उनके द्वारा दी गई नियमित सेवा की गणना परिवीक्षा अवधि, प्रोन्नति, पुष्टि और पेंशन के लिए अर्हक सेवा के लिए की जाएगी।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक श्रेणी-2	08* (2014) (*6 सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे, *2 सशस्त्र बल चिकित्सा भंडार डिपो और सशस्त्र बल रुधिर आधान केंद्र)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय,	वेतन बैंड-1: 5200—20200 रु. और ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	18 वर्ष से 27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2: रोजगार कार्यालयों के माध्यम से उन पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति की दशा में प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य	लागू नहीं होता	दो वर्ष
(ii) कुशलता परीक्षण सन्नियम श्रुतलेख 10 मिनट की दर पर 80 शब्द प्रति मिनट		
प्रतिलेखन :		
65 मिनट (अंग्रेजी)		
75 मिनट (हिन्दी)		
(हस्त टाइप राइटर पर)		
या		
50 मिनट (अंग्रेजी)		
65 मिनट (हिन्दी)		
(कंप्यूटर पर)		
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता		
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा		
(10)	(11)	
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	
टिप्पण 1: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी जो नियमित आधार पर सदृश पदों को धारण कर रहे हों और स्तंभ 8 पर सीधी भर्ती के लिए अर्हताएं रखते हों ।		
टिप्पण 2:—सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय, पुणे के लिए आशुलिपिकों की ज्येष्ठता, प्रोन्नति और अन्य संबंधित प्रयोजनों के लिए सशस्त्र बल चिकित्सा भंडार डिपो और सशस्त्र बल रूधिर आधान केन्द्र से पृथक होगी ।		
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		
भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा		
(12)	(13)	
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-		
(ए एफ एम एस डी/ए एफ टी सी के लिए)		
लागू नहीं होता ।		

(12)

1. अपर महानिदेशक, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाएं (उपस्कर और भंडार)	—अध्यक्ष
2. अवर सचिव, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय (स्वतंत्र सदस्य)	—सदस्य
3. निदेशक, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाएं (योजना)	—सदस्य
(ए एफ एम सी, पुणे के लिए)	
1. कमांडेंट या उप कमांडेंट, ए एफ एम सी, पुणे	—अध्यक्ष
2. अवर सचिव या केंद्रीय सरकार के संगठन का समतुल्य अधिकारी (स्वतंत्र सदस्य)	—सदस्य
3. सहायक प्रशासनिक अधिकारी भारसाधक सिविलियन स्थापना	—सदस्य

स्पष्टीकरण ज्ञापन :-

- (i) यह उपबंध करता है कि वेतन, भत्ते, छुट्टी, भविष्यनिधि, अधिवर्षिता की आयु, पेंशन और सेवानिवृत्ति के फायदे, चिकित्सा सुविधाएँ और सेवा की अन्य शर्तों के मामलों में महानिदेशालय, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के अधीन इकाइयों के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा-शर्तें ऐसे नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित की जाएंगी जो यथास्थिति केंद्रीय सरकार के समूह 'क', समूह 'ख', समूह 'ग', और समूह 'घ' से संबंधित ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके स्थानों पर तैनाती के अनुसार तत्समान उनके वेतनमानों को लागू होती हैं।
- (ii) सरकार ने छठे केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा यथारूप से सिफारिश किए गए और सरकार द्वारा स्वीकार किए गए, के अनुसार महानिदेशालय, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाएं, रक्षा मंत्रालय के अधीन इकाइयों के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द को भूतलक्षी प्रभाव अर्थात् 1 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतनमान विस्तारित करने का विनिश्चय किया है।
- (iii) यह प्रमाणित किया जाता है कि रक्षा मंत्रालय, महानिदेशालय, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के अधीन इकाइयों के अधिकारियों, कर्मचारियों को इन संशोधनों द्वारा भूतलक्षी प्रभाव देने से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[फा. सं. 3019/स्टैनो ग्रेड II-III/डीजीएफएमएस/डीजी-2बी/558/आर आर/रक्षा(नि.)/2014]

दलपत सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 9th July, 2014

S. R.O. 45.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' post of Stenographer Grade-III (Now re-designated as Stenographer Grade-II) in Armed Forces Medical College, Pune, Armed Forces Medical Stores Depots and Armed Forces Blood Transfusion Centre under the Directorate General Armed Forces Medical Services, Ministry of Defence, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Directorate General Armed Forces Medical Services, Group, 'C', Stenographer Grade-II, Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and pay band/grade pay and pay scale. - The number of the said post, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications etc. - The method of recruitment for the said posts,

age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Initial Constitution.- The employees holding the post of Stenographer Grade-III(now re-designated as Stenographer Grade-II) are appointed in Units (Armed Forces Medical College, Pune, Armed Forces Medical Stores Depots and Armed Forces Transfusion Centre under the administrative control of DGAFMS) were recruited on the basis of Model Recruitment Rules. The regular service rendered by them before the publication of these rules shall be counted for the purpose of probation period, qualifying service for promotion, confirmation and pension.

5. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer Grade-II	08* (2014) (*06- Armed Forces Medical College, Pune *02 Armed Forces Medical Stores Depots and Armed Forces Transfusion Centre)	General Central Service, Group 'C', (Non-Gazetted), Non-Ministerial	Pay Band-1 Rs. 5200—20200, and Grade Pay Rs. 2400	Not applicable	18-27 years Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi

(6)		
Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).		
Note 2 : In the case of recruitment made through Staff Selection Commission or Publication in Employment News, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.		
Educational and other qualifications required for direct recruit	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
(i) 12th class pass or equivalent from a recognized Board or University.	Not applicable	Two years
(ii) Skill Test Norms Dictation: 10 Mts @ 80 w.p.m. Transcription: 65 mts.(Eng.) 75 mts.(Hindi) (On Manual Typewriter) Or 50 mts.(Eng.). 65 mts. (Hindi) (On Computer)		
Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by transfer or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption, grades from which promotion / deputation/ absorption to be made.	
(10)	(11)	
By direct recruitment.	Not applicable	
Note: - Vacancies caused by the incumbent being away in transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from offices of Central Government holding <u>analogues posts on regular basis and</u>		

(10)

possessing the qualifications prescribed for direct recruits at Co1. 8.

Note:- The seniority of Stenographers will be separate for Armed Forces Medical College, Pune from Armed Forces Medical Stores Depots and Armed Forces Transfusion Centre for promotion and other related purposes.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) consisting of:- (For AFMSD/AFTC)

Not applicable.

1. Additional Director General of Medical Services (Equipment & Stores) - Chairman,
 2. Under Secretary to Government of India, Ministry of Defence (Independent Member) - Member,
 3. Director Armed Forces Medical Services (Planning) - Member.
- (For AFMC, Pune)**

1. Commandant or Deputy Commandant of AFMC, Pune - Chairman,
2. Under Secretary or equivalent officer of Central Government Organisation (Independent Member) - Member,
3. Assistant Administrative Officer in Charge Civilian Establishment - Member.

Explanatory Memorandum:-

- (i) Provides that the conditions of service of the officers and other employees of the Units under the Directorate General Armed Forces Medical Services, Ministry of Defence in matters of pay, allowances, leave, provident fund, age of superannuation, pension and retirement benefits, medical facilities and other conditions of service, shall be regulated in accordance with such rules and regulations as are for the time being applicable to officers and employees belonging to Group 'A', Group 'B', Group 'C' and Group 'D' of the Central Government, as the case may be, of the corresponding scales of pay stationed at those placed.
- (ii) The Government has decided to extend the revised scales of pay as recommended by the Sixth Central Pay Commission and as accepted by the Government to the Government to the officers and staff of the Units under Directorate General Armed Forces Medical Services, Ministry of Defence retrospectively that is with effect from the 1st day of January, 2006.
- (iii) It is certified that none of the officers and staff in the Units under the Directorate General Armed Forces Medical Services, Ministry of Defence would be adversely affected by these amendments being given with retrospective effect.

[F. No. 3019/Steno. Gde-II & III/DGAFMS/DG-2B/558/D(Apptt.)RR/2014]

DALPAT SINGH, Under Secy.